QUALITEK LABS LIMITED

CIN. L74999DL2018PLC334105

Regd. Office: 73, National Park, Lajpat Nagar IV, New Delhi – 110024 Telephone: 011-41729056/57

Email: info@qualiteklab.com, web: www.qualiteklab.com

Date: 04th September 2025

To, The Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

Scrip Code: QLL | 544091

Subject: Submission of Newspaper Publication – Notice to Shareholders for the 7th Annual General Meeting, Remote e-Voting Information, and Cut-off Date.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulations 42, 44 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, we hereby submit copies of the newspaper publications of the Notice to Shareholders regarding the Qualitek Labs Limited ("the Company"), remote e-voting information and cut-off date.

The said notice was published in the following newspapers on Thursday, 04th September 2025:

- The Financial Express (English All India Edition)
- Jansatta (Hindi Delhi Edition)

The aforesaid information is also available on the Company's website at https://www.qualiteklab.com/compliances/

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Qualitek Labs Limited

Antaryami Nayak Managing Director DIN: 07232463

Encl.: Copies of newspaper publications (English & Hindi)

Corporate Office: C-40, Sector 57, Noida (U.P)201301 Email: company.secretary@qualiteklab.com Telephone: 0120-4336939

FINANCIAL EXPRESS

NORTHERN RAILWAY

Invitation of Tenders through E-PROCUREMENT SYSTEM

Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for supply of the following items:

Tender No.	Brief Description	Qty.	Closing Date
11253802	ALUMINIUM CHEQUERED SHEET	88236 kgs	25.09.25
07250464	OVERHAULING KIT FOR MANIFOLD MOUNTING COCK	2462 set	29.09.25
01251814	105 SQ.MM. (19/7/1.016 MM) ANNEALED COPPER STRANDED JUMPER WIRE	7997 kgs	29.09.25
08250028	RED ASPECT MAIN LED SIGNAL	964 Nos	20.10.25
07251167C	SILENT BLOCK FOR ANCHOR LINK	13694 Nos	31.10.25

NOTE: 1. Vendors may visit the IREPS website i.e. www.ireps.gov.in for details. 2. No Manual offer will be entertained.

Tender Notice NO. 44 /2025-2026

SERVING CUSTOMER WITH A SMILE 2672/2025

CAN FIN HOMES LTD. Can Fin Homes Ltd

NCR Pitampura Branch - DP-11, 1st Floor, Local Shopping Complex Pitampura, Delhi-110 034 011-41761717 Mobile: 7625079150

Dated: 03/09/2025

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

NOTICE is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and

Email: pitampura@canfinhomes.com, CIN: L85110KA1987PLC00869

Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd., Pitampura Branch, will be sold by holding e-auction on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 7th October, 2025 for recovery of Rs. 16,14,872/- (Rupees Sixteen lakh fourteen thousand Eight hundred seventy-two Only) due to Can Fin Homes Ltd. from Smt. Indu Mishra w/o Sh. Sudhama Mishra (Borrower), Sh. Aadarsh Mishra s/o Sh. Sudhama Mishra (Co-Borrower) & Sh Awadhesh Mishra S/o Sh. Badri Narain Mishra (Guarantor) as on 03.09.2025 together with further interest and other charges thereon. The reserve price will be Rs. 16,00,000/ (Rupees Sixteen Lakhs Only) and the earnest money deposit will be Rs. 1,60,000/-(Rupees One Lakh and Sixty Thousand Only).

Description of the Property

Flat No-UG-4, Upper Ground Floor (RHS Back Side), Plot No-184 Gali no-4 Shyam Park Main Village Sahibabad Ghaziabad Uttar Pradesh-201006, (Measuring 415 Sq ft & 117.05 sq mtr.) The boundaries of the property are as per Valuation/Sale Deed: North: Rathi House/Flat no-UG-3, East: Pyare Lal colony/other Property, South: Park side/Plot no-185, West: 30 ft wide road/ Entry Flat no-UG-2 Known encumbrance if any: NIL

The detailed terms and conditions of the sale are provided in the official website of Can Fin Homes Ltd., (https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx).

Link for participating in e-auction : www.bankeauctionwizard.com Date: 03.09.2025

Place: Pitampura

Can Fin Homes Ltd

Authorised Officer

ANKA INDIA LIMITED Regd. Off: 6 Legend Square Sector 33 Gurugram-122004;

CIN: L74900HR1994PLC033268: Email id: response@ankaindia.com; Phone no: 9820069933; 0124-2322570 website; www.ankaindia.com INFORMATION REGARDING THE 315 ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM" OR "THE MEETING") TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) FACILITY

Notice is hereby given that the 31" AGM of Anka India Limited ("the Company") will be held on Monday, September 30", 2025, at 04:00 P.M IST, through VC/OAVM facility, c:ompliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 reed with all applicable circulars on the matter Issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM, to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the meeting. Electronic copies of the Notice convening 31 Annual General Meeting along with the

Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Alankit assignments limited ("Alankit") Company's Registrar and Transfer Agent/ Depository Participant(s) /Depositories. A letter providing the weblink, including the exact path, where the Annual Report and the Notice of the AGM for the financial year 2024-25 is available, will be sent to those members whose email address is not registered with the Company, Alankit/ Depository Participant(s) Depositories. The Notice and the Annual Report will also be available on the Company's website at (www.ankaindia.com), on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com

Members can attend and participate in the 30" AGM through the VC / OAVM facility ONLY as per the details provided by the Company in the said Notice. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 30" AGM of the Company in person. Members attending the Meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In accordance with all the applicable laws, the Members will have an opportunity to cast their votes electronically on the businesses as set forth in the AGM Notice. The eligibilit and manner of voting through remote e-voting (before AGM or at the meeting) for Members holding shares in physical mode and dematerialized mode will be provided in detail in the AGM Notice.

Manner of registering / updating email addresses: (a) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their

email addresses with the Company, are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at response@ankaindia.com or to Alankit Assignments Limited at rta@alankit.com (b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated

their email addresses with their Depository Participants, are requested to register update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts. Registering mandate for receiving future dividend(s) electronically:

To avoid any delay in the receipt of future dividend(s), as and when declared by the

Company, Members are requested to update their Bank details with their Depositories (for dematerialized shares)

and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (for shares held physically) FOR ANKA INDIA LT

ANU SHARMA Company Secretary

PLACE: GURUGRAM DATED: 03.09.2025

- HDB STERVICES

POSSESSION NOTICE REGISTERED OFFICE: RADHIKA,2ND FLOOR, LAW GARDEN ROAD, NAVRANGPURA,

Whereas, The Authorised Officer Of Hdb Financial Services Limited Under The Securitization And Reconstruction Of Financial Assests And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (64 Of 2002) And In Exercise Of Powers Conferred Under Section 13(12) Read With Rules 3 Of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002 Issued Demand Notice To The Borrower's As Detailed Hereunder, Calling Upon The Borrowers To Repay The Amount Mentioned In The Said Notice With All Costs, Charges And Expenses Till Actual Date Of Payment Within 60 Days From The Date Of Receipt Of The Same. The Said Borrower/co-borrower Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hereby Given To Borrower/co-borrower And The Public In General That The Undersigned Has Taken Symbolice Possession Of The Property Described Here Below In Exerise Of Powers Conferred On Him/her Under Secrtion 13(4) Section 14 Of The Said Act Read With Rule 8 Of The Said Rules Of The Security Interest Enforcement Rules 2002 On This 22.12.2023 And 23.12.2023. The Borrowers In Particular And Public In General Are Hereby Cautioned Not To Deal With The Property And Any Dealings With The Property Will Be Subject To The Charge Of Hdb Financial Services Limited For The Amount Specified Herein With Future Interest, Costs And Charges From The Respective Date. Details Of Property Taken In Symbolic Possession Are Herein Below

AHEMDABAD, GUJRAT, PIN CODE: 380009, BRANCH OFFICE: 2nd Floor, Hari Complex,

Behind Wave Mall , Vibhuti Khand , Gomti Nagar Lucknow -226010

1) NAME AND ADDRESS OF THE BORROWER/CO-BORROWER/GUARANTOR; 2) LOAN ACCOUNT NUMBER: 3) LOAN AMOUNT: 4) DATE OF DEMAND NOTICE: 5) CLAIMED AMOUNT IN INR 6) DETAILS OF SECURITIES; 7) DATE OF POSSESSION

1 Name Of The Borrower & Co-Borrower: 1- Prakash Enterprises Dori Nagar Gali No 06 Aligarh-202001 Uttar Pradesh Also At A House Area 100 Sq. Yards Or 83.61 Sq Meters Part And Parcel Of Khasra No. 113 A Situated At Dori Nagar Mauja Aligarh-202001 2) Manorama Wo Naurangilalshar 2412 Dori Nagar Post Bhadeshi Koil Aligarh Aligarh-202001 Uttar Pradesh, 3- Vikas Kumar Dori Nagar Koil Aligarh Aligarh Aligarh-202001 Uttar Pradesh 4) Naurangi Lal Sharma 1037 Gali No 6 Dori Nagar Koil Aligarh Aligarh-202001 Uttar Pradesh, bearing Loan A/c No. 37470830 , Loan Amount Rs.2200000/-Rupees Twenty Two Lakhs Only), Demand Notice Date: 16.06.2025, AMOUNT CLAIMED: Rs.2164255.5/- (Rupees Twenty One Lakh Sixty Four Thousand Two Hundred & Fifty Five - Paise Fifty Only) as of 11.06.2025 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc. .NPA Date : 02.08.2025; Details Of Security: All That Piece And Parcel Of House Area 100 Sq Yards Or 83.61 Sq Meters Part And Parcel Of Gata No 113A Situated At Dori Nagar Mauja Gambhirpura, Pargana And Tehsil-Koil, District Aligarh Boundires : North : Rasta 10 feet wide, South: House of Mahesh Fauji., East: House of Virendra kurnar, West: House of Ramveer sharma, Jugendra sharma and Mihilal Sharma. Date Of Symbolic Possession: 01-09-2025

The Borrowers' Attention is invited To Provisions Of Sub-section (8) Of Section 13 Of The Act, In Respect Of Time Available To Redeem The Secured Asset.

FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT Vikas Anand - 9711010384 - HDB Financial Services Limited, 2nd Floor, Hari Complex, Behind Wave Mall, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow SD/- FOR HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED. Place: Delhi Ncr Date: 04.09.2025 **AUTHORISED OFFICER**

PUBLIC NOTICE

[Under Section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF Mr. GOURI KUMAR PACHANI

(Personal Guarantor of Hi Rise Infratech Private Limited bearing CIN: U70109DL2006PTC154701 and having registered office at 79, Paratap Nagar, Jail Road, New Delhi - 110064)

Notice is hereby given that the Honble National Company Law Tribunal, Guwahati Bench, by Order dated 28.08.2025 passed in CP(IB)/21/GB/2023 Indian Bank (Erstwhile Allahabad Bank) -vs- Gouri Kumar Pachani (PG) I filed under Section 95 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, has initiated Insolvency Resolution Process of Mr. Gouri Kumar Pachani and has appointed Ms. Sudha Sarma as the Resolution Professional. Accordingly, the Creditors of Mr. Gouri Kumar Pachani are hereby called upon to submit their claim in Form B of IBBI (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 along with proof thereof, to the Resolution Professional on or before 25.09.2025 by email, courier, speed post or registered post at her address stated below. **Details of Personal Guarantor**

Mr. GOURI KUMAR PACHANI Name of Personal Guarantor Nazir Road, Tarajan, Jorhat, Assam, PIN: 785001 Address of Personal Guarantor PAN of Personal Guarantor AJVPP0457E Date of Commencement of Insolvency 28.08.2025 (Order uploaded on 29.08.2025) Resolution Process Estimated Date of Closure of Insolvency 24.02.2026

Resolution Process Last Date for Submission of Claim 25.09.2025 Details of Resolution Professional

Name of Resolution Professional Sudha Sarma IBBI Regn Number of Resolution Professional IBBI/IPA-002/IP-N01251/2022-2023/14266 AFA Number & Validity of Resolution Number: AA2/14266/02/300626/203808

Professional Valid upto: 30.06.2026 Address of Resolution Professional M/s Sudha & Associates 185, M.R.D. Road, Near SBI, Bamunimaidam Guwahati, PIN: 781021 EMAIL ID : sudha.sarma@yahoo.com

Mobile No : 98640 50249

Claim form is available at https://www.ibbi.gov.in/home/downloads.

Sudha Sarma Date: 04.09.2025 Resolution Professional Place: Guwahati

> Qualitek Labs CIN: L74999DL2018PLC334105

Regd. Off: 73, National Park, Lajpat Nagar-IV, South Delhi, New Delhi,110024 Email: company.secretary@qualiteklab.com, Website: www.qualiteklab.com Contact No. 011-41729056/57

NOTICE OF 7[™] ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING

Notice is hereby given that the 7th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Qualitek Labs Limited will be held on Thursday, September 25, 2025 at 11:30 A.M. (IST) at Avanta Business Centre, 4th Floor, Statesman House, 402, Barakhamba Road, Connaught Place (Near Barakhamba Metro Station), New Delhi – 110001 to transact the business as set out in the Notice dated August 29, 2025.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing Members the facility to vote on the resolutions by electronic means (remote e-voting) through CDSL. The remote e-voting period will commence on Monday, September 22, 2025 at 9:00 A.M. and end on Wednesday, September 24, 2025 at 5:00 P.M. Members holding shares as on the cut-off date Thursday, September 18, 2025, may cast their votes electronically. The e-voting module shall be disabled thereafter.

Voting rights will be in proportion to the shareholding as on the cut-off date. Members who nave already voted electronically may attend the AGM but will not be entitled to vote agair Members who have not voted electronically may vote through poll at the venue.

Login credentials for e-voting will be sent to Members whose email IDs are registered with the Company/DPs. Members holding shares in physical form, whose emails are not registered, may register by submitting details (name, folio, share certificate copy, PAN, Aadhaar) to company.secretary@qualiteklab.com. Demat shareholders may update their email with DPs and also send to the Company at the above-mentioned email ID. Alternatively, requests for user ID/password may be sent to helpdesk.evoting@cdslindia.com

As per SEBI Circular dated December 9, 2020, shareholders in demat mode can also vote directly through their demat accounts with depositories/DPs. Members must ensure correct email IDs and mobile numbers are updated in their demat accounts.

In case of queries on e-voting, Members may refer to FAQs at www.evotingindia.com or contact CDSL Helpdesk at 022-2305 8738 / 8543 / 8542 or email helpdesk.evoting@cdslindia.com. For grievances, Members may also contact the Company's RTA at info@skylinerta.com or 011-40450193-97. The Board has appointed CS Ronak Jhuthawat, Practicing Company Secretary, as

Scrutinizer for remote e-voting and voting at the AGM. The results will be declared on or before Monday, September 29, 2025 and will be submitted to BSE and placed on the websites of the Company (www.qualiteklab.com) and CDSL (www.evotingindia.com). For Qualitek Labs Limited

Mayank Garg

Membership No. A76038 Place: - Noida Date: - 03rd September 2025 **Company Secretary & Compliance Officer**

IST LIMITED CIN: L33301HR1976PLC008316

Regd. Office: Dharuhera Industrial Complex, Delhi- Jaipur Highway No.8, Kapriwas, Dharuhera, Rewari (Haryana) - 123106 Head Office: A-23, New Office Complex, 2" Floor, Defence Colony, New Delhi-110024, Phone No.: 011-41044511-14; Fax: 011-24625694; Email: istgroup.ho@gmail.com; Website: www.istindia.com

> NOTICE OF THE 49" ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 49" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Friday, the 26" day of September, 2025 at 11:30 a.m. at the Registered Office of the Company at Dharuhera Industrial Complex, Delhi - Jaipur Highway No. 8, Kapriwas, Dharuhera, Distt. Rewari - 123102, Haryana to transact the business as set out in the Notice dated 28" August, 2025 convening the said AGM.

In terms of the provisions of Section 101 and Section 136 of the Companies Act, 2013 read along with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, including any amendment thereto, the Notice setting out the business to be transacted at the 49" AGM along with the Explanatory Statement pursuant to Sec. 102(1) of the Companies Act, 2013 and the Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 have been sent through electronic mode to those shareholders whose e-mail IDs are registered with the Companies/Depository Participants on Tuesday, 2st September, 2025 and to all other Members, whose e-mail IDs are not registered with the Company/Depository Participants or to members who holds shares in physical mode at their Registered Address in permitted manner on Tuesday, 2" September, 2025. The dispatch of the Notice in both the mode have been completed on Tuesday, 2" September, 2025.

In compliance with Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering the remote e-voting facility to all its Members holdings shares as on the cut-off date i.e. 19" September, 2025 to enable them to cast their vote electronically in respect of the business as set out in the Notice of the 49" AGM of the Company. The Company has allied assistance for remote e-Voting from National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facilities which can be accessed at the website www.evoting.nsdl.com

The Company has appointed Mr. Vinod Kumar Aneja, Company Secretary in whole-time practice. New Delhi as the Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and

The members are informed that:

(a) The Business as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by (b) The remote e-voting shall commence on Tuesday, the 23rd day of September, 2025.

(c) The remote e-voting shall end on Thursday, the 25" day of September, 2025 (5.00 P.M.);

(d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, the 19" day of September, 2025;

(e) Any person who acquires shares of the Company and become Member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cutoff date i.e. Friday, 19" September, 2025 may obtain the login Id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the Company's Registrar - Mas Services Limited at investor@masserv.com/sm@masserv.com;

(f) The members may note that the:

Date: 03.09.2025

Place: New Delhi

i. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL at Thursday, the 25" day of

ii. The facility of voting through Ballot Papers will be made available at the AGM for members present at the Meeting;

iii. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;

iv. Only the Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 19th September, 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting facility as well as voting using Ballot Papers at the AGM. A person who is not a member as on

(g) The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 are available on the website of the Company at:

the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;

https://istindia.com/data/AnnualReports/1756547525annual_reports.pdf (h) For any grievances/ queries/clarification relating to e-voting, the Members may refer

the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or call toll free no. 1800-222-990. Members can also contact Company's Registrar and Share Transfer Agent - M/s. Mas Services Limited, having their office at T - 34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi - 110020, Email id: investor@masserv.com / sm@masserv.com, contact no. 011-26387281, 26387282, 26387283 to resolve any grievances;

Notice is hereby also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 20" September, 2025 to Friday, 26" September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. For IST Limited

> Sd/-Bhupinder Kumar Company Secretary

CCL INTERNATIONAL LIMITED CIN No.: L26940DL1991PLC044520

Regd.Off.: M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi - 110033 Corp. Office: C-42, RDC, RAJ NAGAR GHAZIABAD-201002 Tel.: +91-0120-4214258, Fax.: +91-11-22417225

Email Id.: cmpsec@cclil.com, Website: www.cclil.com INFORMATION REGARDING THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING

OF CCL INTERNATIONAL LIMITED

Members are requested to note that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of CCL International Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 12.30 P.M. through video-conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business to be set out in the Notice of the 34th AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("Act"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2024/133 dated October 03, 2024 ("SEBI Circular") issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")

In accordance with MCA Circulars, the Notice of 34th AGM containing procedure and instructions for e-voting and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent only through electronic mode to those members whose email IDs are registered with the RTA/ Company/ Depositories. The Notice of the 34th AGM and Annual Report 2024-25 will be made available on the

website of the Company at www.cclil.com and at the BSE website www.bseindia.com. Members who has not registered their email address are requested to register the same in respect of share held in electronic form with the Depositary through Depositary Participant(s) and in respect of share held in physical form by sending email/ writing to the Company's Registrar and Transfer Agents("RTA"), Alankit Assignment Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055. Members are also requested to update their other details like PAN, Bank details etc. through DPs or RTA. The Company will provide the facility to it's members to exercise their right to vote by

electronic means both through remote e-voting and e-voting at AGM. The instruction on the process of e-voting, including the manner in which the members holding shares in physical form or who have not registered their email address can cast their voting through e-voting will be provided as part of the Notice of the 34th AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the 34th AGM

and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote evoting and e-voting at the time of AGM. In Compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars, this advertisement is being

issued for information and benefit of all the members of the Company.

For CCL International Limited Sd/-

Company Secretary & Compliance Officer

Pradeep Kumar

Place: New Delhi **VLS FINANCE LIMITED**

Date: September 03, 2025

VLS Regd. Office: - Ground Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 CIN: L65910DL1986PLC023129, E-mail: vls@vlsfinance.com Website: www.vlsfinance.com, Ph: 011-4665 6666

A) Notice of the 38th Annual General Meeting ('AGM') and E-voting Information Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of VLS

Finance Limited ("the Company") will be convened through Video Conference ("VC") (Other Audio-Visual Means ('DAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with read with General Circular No. 09(2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') and other relevant notifications. The schedule for the 38th AGM is as follows:

Day, Date and Time of Annual General |: |Saturday, 27/09/2025 at 3:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") Cutoff Date for entitlement of e-voting : Friday, 12/09/2025 Date of remote e-voting Wednesday, 24/09/2025 at 9.00 a.m. till Friday, 26/09/2025 upto 5.00 p.m. Starting at Commencement of AGM and will E-voting at AGM end after 15 minutes of conclusion of AGM.

Kindly note that no physical copy of Annual Report for the Financial Year 2024-2025/letter stating weblink for accessing Financial Statements of the Company will, therefore, be sent suo moto by the Company to the members either before or after the AGM and all communications from the Company relating inter-alia to AGM shall be made in electronic mode viz. email etc. The Company has approached National Securities Depository Ltd ('NSDL') for providing e-voting facility for the ensuing AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes its member after dispatch of the AGM Notice or whose email ID is not registered) updated with the Company and holding shares as on cut-off date may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the Registrar and Transfer Agent ('RTA') of the Company at email ID: investor.services@rcmcdelhi.com or mailing at RTA's office address. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions stated in the Notice of 38th AGM and in case of any queries connected with electronic voting; Shareholders may refer the Frequently Asked Questions and e-voting User Manual for Shareholders available at the Downloads section of NSDL's e voting website www.evoting.nsdl.com. Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cutoff date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting

The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 of the Company is available on the website of the Company at www.vlsfinance.com, the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com, and after dissemination, on the website of the concerned stock exchanges viz. www.bseindia.com., www.nseindia.com and www.cse-india.com. The business to be transacted through electronic means both ordinary and special have been set out in the notice convening 38th AGM.

Members holding shares in physical form are advised to convert their holdings in demat form as transfer of shares in physical form had been prohibited by the SEBI w.e.f. 01/04/2019. Further, they are also requested to register/ update their Email ID, Bank mandate, contact number change in address (if any) enclosing self-attested proof thereof, with the Company by writing to the Company at the registered office or its RTA in prescribed form. Above details along with requisite documents can also be sent electronically to the Company's dedicated investor services email ID: hconsul@vlsfinance.com or RCMC Share Registry Pvt. Ltd.- the RTA at email ID: investor.services@rcmcdelhi.com followed by physical documents. The up-dated Bank details will enable electronic credit of dividend without any delay to the members besides compliance of SEBI's directive dated 16/03/2023. Dividend, if declared, at the ensuing AGM will be paid to members as on the record date for the said AGM viz. 12/09/2025.

Members holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants ('DP') for updating the Email ID, Bank Mandate, contact number, Address etc.

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act') In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and/or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form, with the Company/RTA by sending documents in prescribed form through e-mail followed by physical copy thereof at the earliest as specified in the notice. Any delay/non updation of PAN with the Company may result in deduction of tax at a higher rate on dividend and other benefits, as and when declared by the Company besides other implications as enumerated in the notice convening 38th AGM. The members are requested to periodically check the website of the Company for any updates.

It may be noted that in absence of email ID it would not be possible for the Company to send any communication relating to forthcoming AGM inter alia relating to the link to join the AGM to be held through Video Conference/ OAVM, to such member. For any clarification, please contact Shri Ramesh C. Pandey-Group Head-Secretarial or the undersigned at +91-11-4665 6666. The above communication is intended for information and benefit of all members besides

complying with applicable directives. B) Notice of special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

In accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, notice to the shareholders of VLS Finance Limited is hereby given that the Company has opened a special window for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to April 01, 2019 and were rejected, returned or not attended due to deficiency in the documents, process or otherwise. The said window will be open for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026. All the eligible shareholders / Investors who wish to avail this opportunity may furnish the

original transfer related documents, after rectifying the deficiencies raised earlier to Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. M/s. RCMC Share Registry Private Limited, B-25/1 First Floor, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi-110 020, Email: investor.services@rcmcdelhi.com, Phone Nos. 011 - 26387320-21, 35020465-66. During this period, the re-lodged shares will be transferred only in demat mode upon

submission of complete and valid documents and subject to verification of the same by RTA/Company. The lodger must have a demat account and provide his/her Client Master List (CML), along with the transfer documents and share certificates, while lodging the documents for transfer with Company's RTA. No Transfer requests will be accepted after 6th January, 2026. C) 100 Days Campaign - "Saksham Niveshak" - for KYC and other related updations and shareholder engagement to prevent Transfer of Unpaid / Unclaimed dividends to IEPF

Notice is hereby given to the shareholders of VLS Finance Limited that the Company is

participating in a 100 Day campaign "Saksham Niveshak" started from 28th July, 2025 to

6th November, 2025 as advised by Investor Education and Protection Fund Authority, Ministry

of Corporate Affairs (MCA) vide circular no. 30/06/2025-IEPFA/ 284174 dated 16th July, 2025. This campaign is aimed to benefit all the shareholders who have not claimed their Dividend for any Financial Year from 2018-19 to 2023-24 or have not updated their KYC and nomination details or facing any issues related to unclaimed dividends and shares. The concerned shareholder may write to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e., RCMC Share Registry Private Limited, B-25/1 First Floor, Okhla Industrial Area Phase II New Delhi-110 020, Email: investor.services@rcmcdelhi.com, Phone Nos. 011 - 26387320-21, 35020465-66 or may directly reach out to the Company through phone or email which

The shareholders may further note that this campaign has been started specifically to reach out to the shareholders to update their KYC, bank mandates, Nominee and contact information to prevent interalia their shares from being transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). for VLS Finance Limited

can be accessed from the website of the Company i.e., https://www.vlsfinance.com/.

H. Consul Date: 03.09.2025 Company Secretary Place: New Delhi M. No. A11183

MONEYBOXX

MONEYBOXX FINANCE LIMITED

Registered Office: 523-A, Somdutt Chamber-II, 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066

Corporate Office: Block A, DLF Building 8, 4th Floor, DLF Cyber City Gurugram, Harvana-122002

Head Office: 411-A, Kanakia Wallstreet, Chakala, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400093 CIN: L30007DL1994PLC260191 | Tel: 011-45657452|

Email: info@moneyboxxfinance.com | Website: www.moneyboxxfinance.com |

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING DISPATCH OF NOTICE, ANNUAL **REPORT AND E-VOTING INSTRUCTIONS**

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will

be held on Friday, September 26, 2025 at 04:30 P.M. ("IST") through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means ("OAVM") (hereinafter referred to as VC) to transact the items as set out in the Notice of the AGM in compliance with General Circular 09/2020 dated September 01, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD2/P/CIR/2023/034 dated September 19, 2024 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as the circulars), and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act), related Rules and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The Company has sent the Notice of AGM together with e-voting instructions and Annual

Report for FY 2024-25 on Wednesday, September 03, 2025, through electronic mode to Members whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent (RTA)/Depository Participants (DP) in accordance with the aforesaid provisions and circulars. The AGM Notice and Annual Report for FY 2024-25 is also available and can be downloaded from the website of the Company at www.moneyboxxfinance.com and websites of BSE Limited at www.bseindia.com and National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. A letter containing the web link of the Annual Report for FY 2024-25 is sent to registered address of the shareholders whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP. In terms of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and

resolutions listed in the Notice of the AGM and has engaged the services of NSDL for providing the facility of VC and e-voting. The detailed procedure for attending the AGM through VC, remote e-voting and e-voting during the AGM are provided in the Notice of AGM. Some of the important dates regarding electronic voting are provided below: **EVEN (E-voting Event Number):**

Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Listing Regulations, the

Company is providing remote e voting facility to all its Members to cast their votes on all

Cut-off date for determining eligibility Friday, September 19, 2025 of shareholders for voting: Commencement of remote e-voting Monday, September 22, 2025 (9:00 A.M.) period

Conclusion of remote e-voting period | Thursday, September 25, 2025 (5:00 P.M.) The e-voting module shall be disabled by NSDL after 05:00 P.M. (IST) on September 25, 2025 for voting thereafter. Only those Members, who will be present in the AGM through VC facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred for doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may

19, 2025, may obtain login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote. Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e voting or voting in the AGM, as the case may be. If the member has

provided in the Notice of the AGM and details are also available on the website of the Company at www.moneyboxxfinance.com. Mr.Shashank Pashine from Shashank Pashine & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process

not registered email address with the Company/DP/RTA, the member may follow instructions

before/during the AGM in a fair and transparent manner. Helpdesk for Individual Shareholders for any technical issues related to login through

NSDL: evoting@nsdl.co.in/evoting@nsdl.com or call at 022-48867000.

CDSL: helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll-free number 1800-22-5533. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the Download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

For Moneyboxx Finance Limited

Lalit Sharma

Company Secretary

Date: September 04, 2025 Place: New Delh

KALYANI COMMERCIALS LIMITED Registered office: BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, Delhi-110042 CIN: L45300DL1985PLC021453

E-mail: kalyanicommercialslimited@gmail.com Website-https://www.kalyanicommercials.com, Ph. 011-43063223, 011-47060223

Notice is hereby given that 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 25th day of September, 2025, at 12:00 Noon at BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, Delhi-110042 to transact the business as mentioned in the Notice of AGM. The Notice of AGM has together with Annual report for the Financial Year 2024-2025 has been sent to all the members who has registered their e-mail address with Depositories/RTA/Company and whose names appear in the Register of the Members/Record of Depositories as on 29th August, 2025 by e-mail only pursuant to MCA circular dated 05th May, 2022 read together with circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020 and 05th May, 2020 and SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022.

Notice is further given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements)

. The Company is providing e-Voting facility to the Members of the Company to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the Notice of AGM.

The e-Voting period commences on Monday, 22nd September, 2025 at 9:00.

The e-Voting period ends on Wednesday 24th September, 2025 at 05:00 P.M.

Cut-off date: 18th September, 2025. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting in the General Meeting. The persons who have acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of Notice but before the cut-off date may obtain the login ID and password for availing the facility of e-Voting by following instructions given in the Notice of AGM. Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-Voting or voting in the General Meeting by way of Ballot Process.

The e-Voting shall not be permitted beyond the aforesaid date and time.

A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

In case of any query or grievances connected with the voting by electronic means, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting manual available at the download section of the http://www.evoting.nsdl.com or may contact:a) Mr. Parveen Sharma, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New

Delhi-110020. Email: parveen@skylinerta.com, Tel: 011 30857575 Mr. Sourabh Agarwal, (Whole Time Director), Kalyani Commercials Limited, BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, Delhi-110 042; Email: kalyanicommercialslimited@gmail.com, Tel: 011-43063223, 011-47060223.

11. The Company is conducting the AGM physically, but in compliance with the above provisions and circulars, electronic copies of the Notice of the 40th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 has been sent to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants/ Registrar & Share Transfer Agent ('RTA').

The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-2025 will also be available on the download section of www.evoting.nsdl.com, website of the Company at https://www.kalyanicommercials.com and the website of stock exchange where the equity shares of the Company are listed i.e. (National Stock Exchange of India Limited) at www.nseindia.com.

13. Manner of registering/updating email addresses:

a) Those Shareholders who are holding equity shares in physical mode who have not registered/updated their email addresses, PAN and Banking Details with the Company/RTA are requested to update above said information by writing to the company at kalyanicommercialslimited@gmail.com along with copy of signed request letter mentioning the name and address of shareholder, proof of Bank Details and self-attested copy of PAN/ any other identity and address proof.

Those Shareholders, who are holding shares in dematerialized mode and have

not registered/updated their email addresses and banking details with their Depository Participant(s), are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participant(s). 14. The Company will be providing remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes on the businesses as set forth in the Notice of the AGM. The login credentials

for casting votes through remote e-voting shall be made available to the Shareholders Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 19th

September, 2025 to Thursday, 25th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of

For Kalvani Commercials Limited Sourabh Agarwal (Whole Time Director & CFO) Office Add.: BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, Delhi-110042

New Delhi

epaper.financialexpress.com

Place: New Delhi

Date: 03/09/2025

attend/participate in the AGM through VC but shall not be entitled to cast their votes again. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. September

सार्वजनिक सुचना (ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवाला संहिता 2016 की धारा 102 के अंतर्गत) श्री गौरी कुमार पचनी के लेनदारों के ध्यानार्थ

(हाई राइज इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर, जिनका सीआईएन : U70109DL2006PTC154701 है और जिनका पंजीकृत कार्यालय 79, प्रताप नगर, जेल रोड, नई दिल्ली – 110064 में स्थित है)

एतदट्वारा सचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, गुवाहाटी पीठ ने ऋणशोधनाक्षमता ए दिवाला संहिता 2016 की धारा 95 के अंतर्गत प्रस्तुत CP(IB)/21/GB/2023 (इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) विरुद्ध गौरी कुमार पचनी (पीजी)) में पारित आदेश दिनांक 28.08.2025 द्वारा श्री गौरी कुमार पचनी की ऋणशोधनाक्षमत समाधान प्रक्रिया आरंभ कर दी है तथा इस हेतु सुश्री सुधा सरमा को समाधान व्यवसायी नियुक्त किया है। तदनसार, एतदहारा श्री गौरी कमार पचनी के लेनदारों से अनरोध है कि वे आईबीबीआई (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2019 के प्रपत्र बी में अपना दावा, उसके प्रमाण सहित समाधान व्यवसायी के पास 25–09–2025 को या इससे पहले ईमेल, कृरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा नीचे

दिए	गए पते पर प्रस्तुत करें।					
	व्यक्तिगत गारंटर का विवरण					
į. į	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	गौरी कुमार पचनी				
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	नजीर रोड, ताराजन, जोरहाट, असम, पिन : 785001				
3.	व्यक्तिगत गारंटर का पैन	AJVPP0457E				
1.	ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंग होने की तिथि	28.08.2025 (आदेश 29.08.2025 को अपलोड किया गया)				
5.	ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की अनुमानित तिथि	24.02.2026				
Š.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	25.09.2025				
समाधान व्यवसायी का विवरण						
7.	समाधान व्यवसायी का नाम	सुधा सरमा				
3	समाधान व्यवसायी का आईबीबीआई पंजीकरण संख्या	IBBI/IPA-002/1P-N01251/2022-2023/14266				

मोबाइल नंबर : 98640 50249 दावा प्रपन्न. https://www.ibbi.gov.in/home/downloads पर उपलब्ध है

दिनाँक: 04-09-2025 सुधा सरम स्थान : गुवाहाटी समाधान व्यवसायी



समाधान व्यवसायी का पता

टाटा कैपिटल लिभिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई400013

संख्या : एए2/14266/02/300626/203808

ईमेल आईडी : sudha.sarma@yahoo.com

185, एम.आर.डी. रोड, एसबीआई के पास, बामूनिमैदाम,

मैसर्स सुधा एंड एसोसिएट्स

गवाहाटी पिन : 781021

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावी 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक अ-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टावर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में है तथा नई दिल्ली में अन्य स्थानों सहित एक शाखा कार्यालय ("शाखा") भी स्थित है। कि दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के साथ पठित धारा 230 से 232 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") तथा टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") को हस्तांतरणकर्ता के रूप में तथा टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") को हस्तांतरिती के रूप में व्यवस्था की योजना ("उक्त योजना") को विधिवत मंजुरी दे दी है। इसके अनुसार, टीसीएफएसएल तथा टीसीसीएल (हस्तांतरक कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ 01.01.2024 से सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभों ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभृतियों आदि के साथ एक परिचालनरत व्यवसाय के रूप में टीसीएल में विलय हो गई हैं। उक्त आदेश तथा योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा प्रलेख तथा उनसे संबंधित सभी बकाया राशि आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई है तथा इस प्रकार टीसीएल इसके अनुसार (उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं) से उनका दावा करने की हकदार है।

चूँकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए अनुसार दिनांक 22.05.2021 को एक मांग सूचना जारी की है जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में उल्लिखित राशि चकाने का आह्वान किया गया है।

ऋणकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, एतद्दवारा विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम ८ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक / रचनात्मक

एतद्वारा विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा सामान्य जनता को इस संपत्ति का लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन टाटा कैपिटल लिमिटेड के अधीन होगा, जिसके लिए नीचे उल्लिखित राशि, उस पर ब्याज तथा दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि माँग सुचना की तिथि से

(ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।)

ॠण खाता संख्या	दायित्वधारी / कानूनी वारिस(सों) का नाम / कानूनी प्रतिनिधि	मांग सूचना(ओं) की राशि एवं तिथि	भौतिक कब्जा की तिथि
20711443	1. मैसर्स शो हब, अपने मालिक के माध्यम से, श्रीमती अंशू साहनी मकान नं. 49, भूतल, डायनामिक गुलमोहर फ्लैट्स, ताज नगरी, योजना फेज—2, सेक्टर—एफ, आगरा, उत्तर प्रदेश— 282001, 2. श्रीमती अंशू साहनी, मकान नं. 49, भूतल, डायनामिक गुलमोहर फ्लैट्स, ताज नगरी, योजना फेज— 2, सेक्टर—एफ, आगरा, उत्तर प्रदेश— 282001, 3. श्री मनीष साहनी मकान नं. 49, भूतल, डायनिक गुलमोहर फ्लैट्स, ताज नगरी, योजना फेज—2, सेक्टर— एफ, आगरा, उत्तर प्रदेश— 282001, पता यहां भी: श्री मनीष साहनी 49/1, ताज रोड, सदर बाजार आगरा 282001	रु. 4655189.12 / — तथा 22.05.2021	03.09.2025

सुरक्षित संपत्ति का विवरण : फ्लैट संख्या 49, भूतल, डायनेमिक गुलमोहर फ्लैट्स, टीएम नगरी योजना, द्वितीय चरण, सेक्टर एफ, ताजगंज वार्ड, आगरा 282004, संबंधित उप-पंजीयक, बीमा के साथ पंजीकृत विक्रय विलेख में विशेष रूप से वर्णित, अतिरिक्त बही संख्या 4610, खंड संख्या 5976 पृष्ठ 1 से 38 में प्रलेख संख्या 1 के रूप में, 01/06/2012 को पंजीकृत। संपत्ति की सीमा इस प्रकार है:- पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः सड़क किनारे, उत्तरः फ्लैट संख्या 50, दक्षिणः फ्लैट संख्या 48

दिनाँक : 04-09-2025 स्थान : आगरा (उत्तर प्रदेश) हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी कृते टाटा कैपिटल लिमिटेड

फैबइंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं : 10. लोकल शॉपिंग कॉम्लेक्स, संक्टर बी पॉकेट--7, वंसत क्रंज, नई दिल्ली--110070. हेड ऑफिस : सी-40. दूसरा घलोर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फंस-II, नई दिल्ली-110020 फोन : +91-11-40692000, (CIN) : U74899DL1976PLC008436 ई-मेल : mailus@fabindia.net, येवसाइट : www.fabindia.com 48वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

फैबइंडिया लिमिटेड (कंपनी') की 48वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 26 सितम्बर, 2025 क प्रातः 11.30 बजे (आईएसटी) सी-42. दूसरा तल, गेट नं. 1. ओखला ईंडस्ट्रियल एरिया फेज-2, नई दिल्ली-110020 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम के आयोजन की सूचना (नोटिस) दिनांक 19

अगस्त 2025 में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित उसके तहत बनाए गए नियमें अनुपालन में अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति का विवरण (एजीएम से पहले रिमोर्ट ई—वोटिंग एवं एजीएम में बेलेट पेपर के माध्यम से मतदान) की प्रक्रिया से संबंधित विवरणों के साध्य एज़ीएम के आयोजन की सुचना इन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से मेज़ी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृते हैं और उन सदस्यों के संबंध में जिनके ई-मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृ त नहीं हैं, सुबना की भौतिक प्रति स्वीकार्य माध्यम से भेजी गई है। एजीएम के आयोजन की सुधना कंपन की वेबसाइट www.fabindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसेंडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। 29 अगरत, 2025 को या तो भौतिक प्रारूप डीमैटरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण को एजीएम के आयोजन की सूचना भेजी गई है। उक्त सूचना भेजने का कार्य दिनांक 02 सितम्बर, 2025 को पूरा हो गया है।

सदस्यों को एतदहारा सुचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियमें की घारा 108 के अनुसार कंपनी ने एजीएम की सूर्यना में निर्धारित सभी प्रस्तावों के संबंध में सभी सदस्यों को रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से इलक्ट्रोनिक पद्धति और एजीएम में बैलेट ऐपर द्वारा अपने मतुदान अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल हारा प्रदान की जीएगी

कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार 19 सितम्बर, 2025 को भौतिक प्रारूप में या डीमेंटरियलाइण्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण एजीएम की सुधना में निर्धारित सभी प्रस्तावित संकल्पों पर रिमोर ई- वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। डीमेट्रियलाइण्ड प्रारूप या भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई-बोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया

रिमोट ई-बोटिंग मंगलवार, 23 सितम्बर, 2025 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और बृहस्पतिवार, 25 सितम्बर, 2025 को साथ 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान भौतिक प्रारूप में या डीमेटरियलाइएड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंगू द्वारा अपना बोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वॉटिंग सुविधा https://www.avoting.nsd/.com पर उपलब्ध होगी। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-योटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा 25 सितम्बर, 2025 को साथ 5:00 बर्जे (आईएसटी)

सदस्यगण कृपया नोट करें कि: एजीएम में बैलेट पेपर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई—बोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यूथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, कवल वे ही बेलेट पेपर के माध्यम से एजीएम में मतदान करने

किन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो

सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे;) एक व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025 को व्यावसायिक घंटों के समापन पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या विपोजिटरी द्वारा प्रस्तुत लामार्थी स्वामियों की सूची में शामिल है, केवल वे ही रिमोट ई—बोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट की सुविधा का लाम उठाने

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना मेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट्-ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितम्बर, 2025 की शेवर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालोंकि, यदि कोई ब्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसड़ीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपना मौजदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है:

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री अरुण कुमार गुप्ता, पंशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 5551 जिनके पास प्रैक्टिस प्रमाणपत्र संख्या 5086 है) को रिमोट इं-बोटिंग और एजीएम मे बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया की निष्पृक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीहक नियुक्त किया है। मतदान का परिणाम एजीएम के समापन के 3 दिनों के भीतर घोषित किया जाएगा और इसे समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.fabindia.com) एवं एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर प्रकृतिहात किया जाएगा । परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के साथ-साथ

कॉपॉरेट कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे। सदस्य यह भी नोंट करें कि यदि लाभांश घोषित / अनुमोदित किया जाता है, तो उसका भूगतान ऐसे सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम 19 सितम्बर, 2025 (रिकॉर्ड तिथि) के कारोबारी घटी के अंत तक

सदस्यों / बेनपोस के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, जो लागु होने पर स्रोत पर कर की कटौती के अधीन होगा। सदस्यगण जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अपछेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे श्री दिनेश कुमार जैन, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी से फोन नूं. +91 8448838559 या dinesh jain@fabinda.net पर या stakeholders@fabindia.net पर संपर्क करको कंपनी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकत / अपबेट कराएं। ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर डाउनलॉड सेवशन पर

जेपलब्ध शेयरबारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरघारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल को अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री न, 022-4886700, और 022-4996700, पर कील करें सकते हैं । विकृत्पतः सदस्यगण सुश्री पल्लवी महान्ने, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेशानसा कृते फैबइंडिया लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 03.09.2025

दिनेश कमार जैन कम्पनी सविव और अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं एकसीएस-6224 HDB HANGIAL

कब्जा सूचना पंजीकृत कार्यालयः राधिका, द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिनकोड-380009, शाखा कार्यालयः द्वितीय तल, हरि कॉम्प्लेक्स, वेव मॉल के पीछे, विभूति खंड, गोमती

जैसा कि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 64) और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सुचना में उल्लिखित राशि तथा भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूनर्भगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी। कथित कर्जदार/सह-कर्जदार के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार तथा जनसामान्य को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) धारा 14 के तहत इसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 22.12.2023 तथा 23.12.2023 पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को अतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ लेन-देन सम्बद्ध तिथि से भावी ब्याज, लागत तथा प्रभारों सहित यहाँ निर्दिष्ट राशि हेत एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। सांकेतिक कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण निम्नलिखित है:

1) उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण राशि; 4) मांग नोटिस की तिथि: 5) दावा की गई राशि (भारतीय रुपये में) 6) प्रतिभतियों का विवरण:

कर्जदार तथा सह-कर्जदार का नाम: 1- प्रकाश एंटरप्राइजेज डोरी नगर गली नंबर 06 अलीगढ-202001 उत्तर प्रदेश, साथ ही: खसरा संख्या 113 ए का भाग, घर क्षेत्रफल 100 वर्ग गज अथवा 83.61 वर्ग मीटर, डोरी नगर मौजा अलीगढ-202001 में स्थित

2) मनोरमा पत्नी नौरंगीलालशर 2412 डोरी नगर पोस्ट भदेशी कोइल अलीगढ़ अलीगढ़- 202001 उत्तर प्रदेश 3) विकास कुमार डोरी नगर कोइल अलीगढ अलीगढ अलीगढ-202001 उत्तर प्रदेश

4) नौरंगी लाल शर्मा 1037 गली नंबर 6 डोरी नगर कोइल अलीगढ़ अलीगढ़- 202001 उत्तर प्रदेश ऋण खाता संख्या 37470830, ऋण राशि रु.2200000/- (रुपए बाईस लाख मात्र), माँग सुचना तिथिः

दावा की गई राशिः 11.06.2025 तक रु. 2164255.5/- (रुपए इक्कीस लाख चौसठ हजार दो सौ पचपन तथा पचास पैसे मात्र) तथा वास्तविक वसुली तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकरिमक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि सहित

एनपीए तिथिः 02.06.2025, प्रतिभूति का विवरणः मकान का समस्त भाग, क्षेत्रफलः 100 वर्ग गज या 83.61 वर्ग मीटर, गाटा संख्या 113ए का एक भाग, डोरी नगर, मौजा गंभीरपुरा, परगना और तहसील-कोइल, जिला सीमाएँ: उत्तरः 10 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः महेश फौजी का मकान, पूर्वः वीरेंद्र कुमार का मकान, पश्चिमः रामवीर शर्मा, जुगेंद्र शर्मा और मिहीलाल शर्मा का मकान।

कर्जदार का ध्यान प्रतिभृत आस्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सांकेतिक कब्जे की तिथि: 01-09-2025

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया संपर्क करें: विकास आनंद - 9711010384, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, द्वितीय तल, हरि कॉम्प्लेक्स, वेव मॉल के पीछे, विभृति खंड, गोमती नगर लखनऊ-226010 स्थान : दिल्ली रा.रा.क्षे. हस्ता./-, कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तिथि : 04.09.2025 अधिकृत प्राधिकारी



कॉरपोरेट पहचान संख्या (CIN): L74999DL2018PLC334105 पंजीकृत कार्यालयरू 73, नेशनल पार्क, लाजपत नगर-IV, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली-110024 ईमेलः company.secretary@qualiteklab.com, वेबसाइटः www.qualiteklab.com संपर्क संख्याः - 011-41729056 / 57

7वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM) एवं ई-बोटिंग की सूचना

यह सुचित किया जाता है कि क्वालिटेक लैब्स लिमिटेड की 7वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM) दिनांक गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025 को प्रातः 11:30 बजे (IST), स्थानः अवंता बिजनेस सेंटर, चौथी मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, 402, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस (नज़दीक बाराखम्बा मेट्रो स्टेशन), नई दिल्ली — 110001 पर आयोजित की जाएगी, जिसमें दिनांक 29 अगस्त, 2025 की सूचना में उल्लिखित कार्यों पर विचार एवं निर्णय लिया जाएगा।

कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 108 तथा कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 और SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एवं डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (रिमोट ई—वोटिंग) मतदान की सुविधा CDSL प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 22 सितम्बर, 2025 को प्रातः 9:00 बजे से प्रारम्भ होकर बुधवार, 24 सितम्बर, 2025 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। जो सदस्य कट–ऑफ तिथि ग्रुरुवार, 18 सितम्बर, 2025 को शेयरधारक होंगे, वे ई—वोटिंग द्वारा अपने मत प्रदान कर सकेंगे। इसके पश्चात ई—वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। मतदान अधिकार शेयरधारिता के अनपात में होंगे जैसा कि कट—ऑफ तिथि पर है। जिन्होंने पहले ही

ई—वोटिंग द्वारा मत दिया है वे AGM में उपस्थित हो सकते हैं, परंतू पूनः मतदान करने के पात्र नहीं

होंगे। जिन्होंने ई—वोटिंग नहीं की है, वे सभा स्थल पर मतदान कर सर्केंगे। ई—वोटिंग हेतू लॉगिन क्रेडेंशियल्स उन सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ईमेल आईडी कंपनी / DPs के साथ पंजीकृत हैं। जो सदस्य भौतिक स्वरूप में शेयर रखते हैं और जिनके ईमेल पंजीकृत नहीं हैं, वे अपना विवरण (नाम, फोलियो, शेयर प्रमाणपत्र की प्रेति, पैन, आधार) company.secretary@qualiteklab.com पर भेजकर ईमेल पंजीकृत कर सकते हैं। डिमैट शेयरधारक अपने ईमेल आईडी अपने DPs के साथ अपडेट करें और साथ ही कंपनी को भी उपर्यक्त ईमेल पर भेजें। वैकल्पिक रूप से. उपयोगकर्ता आईडी ⁄ पासवर्ड हेत अनरोध helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजा जा सकता है।

SEBI के दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डिमैट मोड में शेयरधारक सीधे अपने डिमैट खातों / DPs के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके डिमैट खातों में सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट हों।

ई—वोटिंग संबंधी किसी भी प्रश्न हेतु सदस्य www.evotingindia.com पर उपलब्ध FAQs देख सकते हैं अथवा CDSL हेल्पडेस्क से 022–2305 8738 / 8543 / 8542 पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेज सकते हैं। किसी भी शिकायत हेतु सदस्य कंपनी के RTA से info@skylinerta.com या 011—40450193—97 पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी के बोर्ड ने रिमोट ई–वोटिंग एवं AGM में मतदान के लिए सीएस रोनक झूटावत, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है। मतदान के परिणाम सोमवार, 29 सितम्बर, 2025 तक घोषित किए जाएंगे और BSE को प्रस्तुत किए जाएंगे तथा कंपनी (www.qualiteklab.com) एवं CDSL (www.evotingindia.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

क्वालिटेक लैब्स लिमिटेड के लिए

हस्ता / -

मयंक गर्ग

स्थानः– नोएडा

दिनांक:- 03 सितम्बर 2025

प्रपत्र संख्या 14

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता संख्याः ए७६०३८

[विनियमन 33(2) देखें] पंजीकृत डाक ए/डी, द्वारा, दस्ती, अन्यथा प्रकाशन द्वारा। पुनर्प्राप्ति अधिकारी का कार्यालय - 💵 ऋण पुनर्पाप्ति अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 मांग नोटिस

ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत नोटिस

आर्सिल

मैसर्स एसएएल मार्केटिंग

(सीडी 1) मैसर्स एसएएल मार्केटिंग

(सीडी 2) श्री मनोज टंडन - मागीदार

एफ-24, कालकाजी, नई दिल्ली-19 इसके अतिरिक्तः सी-11, ग्राउंड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश, भाग-।, नई दिल्ली

(सीडी 3) श्रीमती मन्जू टंडन - मागीदार

एफ-24, कालकाजी, नई दिल्ली-19 इसके अतिरिक्त: सी-11, ग्राउंड फ्लोर,

ग्रेटर कैलाश, भाग-।, नई दिल्ली

(सीडी 4) श्री एम.एम. टंडन -एफ-24, कालकाजी, नई दिल्ली-19 इसके अतिरिक्तः सी-11, ग्राउंड फ्लोर,

ग्रेटर कैलाश, भाग-। नई दिल्ली (सीडी 5) मैसर्स हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड,

गेट नं. एफ-04, जिला कांचीपुरम, तमिलनाड्

(सीडी 6) मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड पालम गुडगाँव रोड, गुडगाँव-122015

यह सूचित करने हेतु है कि ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2) के अध्यक्ष अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में टीए/557/2023 में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, आपके विरुद्ध रु. 12,02,51,162.51 / - (रुपये बारह करोड दो लाख इक्यावन हजार एक सौ बासठ रुपये और इक्यावन पैसे मात्र) की राशि बकाया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 09/07/2008 से अदायगी तक @ 16.75% वार्षिक साधारण ब्याज (लंबित व भविष्य का) तथा रु.1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) की लागत भी देय है। यह बकाया आप पर (संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से / पूर्ण रूप से / सीमित रूप से) देय हो गया है।

2. आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा दसूली की कार्यवाही बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार की

आपको आदेशित किया जाता है कि अगली सनवाई की तिथि से पूर्व अपने परिसंपत्तियाँ

का विवरण शपथपत्र पर प्रस्तृत करें। आपको आदेशित किया जाता है कि दिनांक 25/03/2025 को प्रात: 10:30 बजे अधोहरताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेत् उपस्थित हों।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होंगे : (क) वह ब्याज जो इस प्रमाण पत्रध कार्यवाही की नोटिस के तुरंत बाद से देय होगा।

(ख) इस नोटिस की सेवा, वारंट, अन्य प्रक्रियाओं तथा बकाया राशि की वसूली हेत की गई समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय।

मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मृहर सहित, दिनांक रू 06/02/2025 वसली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)

प्रतिलिपि : ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)

आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रमाणपत्र देनदार (प्रमाणपत्र देनदार) द्वारा किया गया भुगतान, यदि कोई हो, इस मामले में समस्त बकाया ऋणों के संयक्त खाते में समायोजित किया जाए तथा भुगतान की रिथति की सूचना नियमित रूप से पुनर्प्राप्ति अधिकारी को दी जाए। इस प्रकार रखे गए संयुक्त खाते का सत्यापन पुनर्प्राप्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आपको आगे यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त मामले में कुल दावा राशि का अद्यतन विवरण एवं वह सम्पूर्ण संपत्ति विवरण प्रस्तुत करें, जिससे ऋण की वसुली की जा सके।

नोट: जो लागू न हो, उसे काट दें।

टाइगर लॉनिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL2000PLC105817

पंजीकृत कार्यालयः डी-174, जीएफ, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली 110020 दुरभाषः 011-47351111, फैक्सः 011-26229671

वेबसाइटः www.tigerlogistics.in, ईमेल आईडीः csvishal@tigerlogistics.in 25वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और

बुकिंग बंद होने की सूचना एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों

की 25वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम' या 'बैठक') गुरुवार, 25 सितंबर 2025 को दोपहर 01:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, उसके बाद परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 के अनुसार एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया जा सके। 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई 2022, 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और 25 सितंबर 2023 और नवीनतम 09 / 2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 ("एमसीए परिपत्र") और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / डीडीएचएस / पी / सीआईआर / 2022 / 0063 दिनांक 13 मई 2022, सेबी / एचओ / सीआरडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक ७ अक्टूबर २०२३ भारतीय बोर्ड (सेबी परिपत्र) के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष २०२४–२५ के लिए 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना बुधवार, 3 सितंबर 2025 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी है जिनके ईमेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट ('रजिस्ट्रार') और डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दी गई है, हालाँकि कंपनी (टाइगर लॉजिस्टिक्स) सभी लागू नियमों, विनियमों, परिपत्रों या प्रावधानों, यदि कोई हो, का पालन करेगी।

वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट, 25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण सहित, कंपनी की वेबसाइट **www.tigerlogistics.in** और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय–समय पर संशोधित, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में एजीएम से पहले / उसके दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग की स्विधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 25वीं वार्षिक आम बैठक की सचना में दिए गए हैं। रिमोट ई—वोटिंग सुविधा 21 सितंबर 2025 से सुबह 9रू00 बजे से 24 सितंबर 2025 शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों को ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है जिनका नाम 18 सितंबर 2025 (कट—ऑफ तिथि) तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिस व्यक्ति ने शेयर प्राप्त किए हैं और सुचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है, वह सीडीएसएल से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

पहले / उसके दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम

एएमजे एंड एसोसिएट्स के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार जैन को एजीएम से

10 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 25वीं एजीएम के लिए 18 सितंबर 2025 से 25 सितंबर 2025 तक (दोनों दिन सिम्मिलित) बंद रहेंगे। टाइगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिभिटेड के लिए

मंजू युटीक श्रीमती

दिनांकः 03.09.2025 स्थान :नई दिल्ली कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

नई दिल्ली-110001

फोन: +91 11 43579200, फैक्स: +91 11 23355824

ईमेलः info@kplintl.com, वेबसाइटः www.kplintl.com

वार्षिक आम बैठक की सूचना

सुचना में निर्धारित कार्यों को पूरा किया जाएगा।

केंद्र सरकार, कंपनी रजिस्ट्रार,

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के समक्ष

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की

धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित देयता

भागीदारी नियम. 2009 के नियम 17 के मामले

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की

धारा 13(3) के मामले में और "एडवेब्रो

कार्यालय सी-1, एस/एफ (बैक साइड), जनता

गार्डन, पांडव नगर, नई दिल्ली-110091 में है,

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एलएलपी ने अपना

पंजीकृत कार्यालय "रा. रा. क्षेत्र दिल्ली" राज्य से

"उत्तर प्रदेश" राज्य में बदलने की अनुमति प्राप्त करने

के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली और

हरियाणा को आवेदन करने का प्रस्ताव दिया है और

प्रस्तावित पता फ्लैट नं. 131, 13वीं मंजिल, टावर-सी

गुलशन विवांटे, सेक्टर-137, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा,

कोई भी व्यक्ति जिसके हित इस प्रस्तावित बदलाव से

प्रभावित हो सकते हैं, वह इस सूचना के प्रकाशन की

तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर कंपनी

रजिस्ट्रार, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के पास

हलफनामे के साथ अपने आपत्ति/यां, जिसमें उसके

हित की प्रकृति और विरोध के आधारों का उल्लेख हो,

प्रस्तुत कर सकता है या पंजीकृत डाक से भेज सकता

है जिसकी एक प्रति एलएलपी के उपरोक्त पंजीकृत

पपत्र संख्या आइएनसी-26

आर्कियन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएनः U74899DL1995PTC074302

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के

नियम 30 के अनुसरण में]

केंद्र सरकार के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की

उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014

के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के

मामले में

मेसर्स आर्कियन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड.

("कंपनी") के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय

बी—1911, श्याम विहार, फेज—।।, मठ मंदिर के

पास, गोला डायरी रोड, नजफ, गढ़, नई दिल्ली,

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार को

आवेदन प्रस्तुत कर रही है, जिसमें 16 जुलाई, 2025 को

आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के

कार्यालय ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''झारखंड

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय

के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संगावना है, वह

निवेशक अनुरूप फॉर्म भरकर एमसीए—21 पोर्टल

www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या अपने हित

की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए हलफनामे के

साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल

अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

नई दिल्ली–110003 को इस सुचना के प्रकाशन की तिथि

से चौदह दिनों के भीतर, आवेदक कंपनी को उसके

पंजीकृत कार्यालय, नीचे दिए गए पते पर एक प्रति सहित,

पंजीकृत कार्यालयः बी–1911, श्याम विहार, फेज–II, मठ

मंदिर के पास, गोला डायरी रोड, नजफ, गढ़, नई दिल्ली,

आर्कियन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से

हस्ताक्षरकर्ता 🖊

सुनील कुमार सहाय

डीआईएनः 00761193

निदेशक,

दिल्ली, भारत, 110043 में स्थित है।

राज्य'' में परिवर्तित कर सके।

दिल्ली, भारत, 110043।

दिनांक: 03.09.2025

स्थानःदिल्ली

के लिये और उसकी ओर से

एडवेब्रो प्रोडक्शंस एलएलपी

जीत शर्मा

याचिकाकर्ता

(नामित भागीदार)

कार्यालय के पते पर भी भेजनी होगी।

दिनांक: 04/09/2025

स्थानः नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 04.09.2025

प्रोडक्शंस एलएलपी''

उत्तर प्रदेश-201305 है।

निदेशक मंडल के आदेश से

राहुल अंबरदार

पुणर्कालिक निदेशक

डीआईएन: 01198347

सोनल मर्केटाइल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ३६५, वर्धमान प्लाजा, तृतीय तल, सेक्टर–३, रोहिणी, नई दिल्ली –110085 सीआईएनः L51221DL1985PLCO22433, दूरभाषः 011-49091417, 8287003745

ई—मेलः sonalmercantile@yahoo.in, वेबसाइटः www.sonalmercantile.in

40वीं वार्षिक आम बैठक के सदस्यों के लिए सचना ततद्वारा सचित किया जाता है कि सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम

iगलवार, 30 सितंबर, 2025 को पूर्वाह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों 'ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया नाएगा। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, संख्या 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020, संख्या 22 / 2020 दिनांक 15 जुन 2020, संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, संख्या 10/202⁻ देनांक 23 जुन, 2021, संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, संख्या 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, संख्य 11 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, और संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और नवीनतम 09 / 2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 (इसके बाद सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD&2/P/ CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 और SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक ७ अक्टबर, 2023, और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सामृहिक रूप से (सेबी परिपत्र के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी 03 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 और एमसीए और सेबी द्वारा समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों और अधिसूचनाओं के अनुसार, कंपनियों को एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। जीएम का स्थल 365, वर्धमान प्लाजा, तीसरी मंजिल, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 में स्थित कंपनी क

और वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं. केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्टॉनिक माध्यम से भेजी जाएंगी जिन्होंने उपरोक्त परिपत्रों के अनसार कंपनीधंडिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.sonalmercantile.in, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 'संशोधित सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 36(1)(बी

परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की कोई भी भौतिक प्रतियां किसी

ी शेयरधारक को नहीं भेजी जाएंगी। तदनसार वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सचना

पंजीकत कार्यालय माना जाएगा।

के अनुसार, कंपनी की वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और 40वीं वार्षिक आम बैठक की सचना प्राप्त करने के लिए वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों को भेजा जा रहा है. जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी या किसी डिपॉजिटरी या स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रान् और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ पंजीकृत नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम

20 और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, और भारतीय कंपनी

सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों (SS–2) के अनुपालन में, सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा प्रदान की गई इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई–वोटिंग') का उपयोग करके वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। 23 सितंबर, 2025 की कट–ऑफ तिथि तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ई–वोटिंग के हकदा होंगे। वार्षिक आम बैठक में इलेक्टॉनिक वोटिंग की सविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक में वोट क सकेंगे। जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है. रजीएम में उपस्थित हो सकते हैं. लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। एक बार किसी प्रस्ताव फ नदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद NSDL द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। यदि शेयरधारकों ने डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपना इमेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, तो कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों / आरटीए, जैसे स्काईलाइन काइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, से www.skylinerta.com पर संपर्क करके अपना ईमेल आईडी अपडेट करें औ dmin©skylinerta.com और कंपनी का sonalmercantile©yahoo.in पर ईमेल लिखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट देखें। कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर बुधवार, 24 सितंबर 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

	रिमाट इ—वाटिंग के माध्यम से मतदान आरे वाषिक आमें बठक (एजाएम) में मतदान हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट—ऑफ डेटा ।	
2)	रिमोट ई—वोटिंग प्रारंभ होने का दिन, तिथि और समयः	शनिवार, 27 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे IST)
3)	रिमोट ई—वोटिंग समाप्त होने का दिन, तिथि और समयः	सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे IST)
٠ ٢٠	00	-1 + - 1

तिथि अर्थात मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 तक शेयर धारण करता है, evoting©nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर पयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई—वोटिंग के लिए NSDL के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करने के तरीके के लिए, कृपया वार्षिक आम बैठक की सूचना देखें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरण के लिए, कृपया वार्षिक आम बैठक की सूचना देखें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया 🛮 www,evoting,nsdl,com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (७।फ) और ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें या टोल-फ्री नंबर: 022 – 4886 7000 और 022 – 2499 7000 पर संपर्क करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

भौतिक करने

दिनांक 29-08-2025 तक

कुल बकापा

रुपये 1916267 /-

किंवत उन्होंस लाख

सोतह हजार वी

23/07/2025

विशांक 29-08-2025 तक

सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड के लिए अक्षय खरे

कंपनी सचिव

आरचित मूला

रुपये 2880000/-

वियम अप्रार्थन लाग

बोली वृद्धि चरित

(ईएमडी)

288000 /-

(केवल दो लाख

अद्वासी सजार रूपवें)

ख्यये 1523000/-

संवत पन्द्रह लाग

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

की बिकी। जबकि आईआईएफएल-एवएफएल के प्राधिकत अधिकारी (फ्लोर) ने निम्नलिखित ऋग खातों / समावना संख्याओं में अधिनियम की पारा 13(2) के तहत जारी नोटिस ।

अनुसरम् में निम्नलिकित संपत्तिरशंपतियों का कब्जा ने लिया था। आईआईएफएल – एचएफएल के बकावा की वसूली के लिए इसे "कड़ी है जैसा है जैसा है और बिना किसी सहार

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः ३ सितंबर, 2025

केपीएल इंटरनेशनल लिमिटेड CIN: U23209DL1974PLC029068 संख्या 98 त्यांग विहार फेज-4 महमाप-122015 हिरियामा) और शाखा कार्यालय ए-1-डी सेक्टर-18 लीएडा 201301 ततर प्रदेश /30 /30ई ऊपरी तल शिवाजी मार्ग पंजी. कार्यालय: 212ए, 216 और 222, 2री मंजिल, दिल्ली—110015 को दितीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निमांच तथा प्रतिमृति हिए प्रयान अधिनियम 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के अंतर्गत गिरवी रखी गई अचल संघा 'इंद्रप्रकाश', 21, बाराखंभा रोड,

ि आधार पर बेचने के अधिकार के लाथ, बिकी अधोहस्ताक्षरी द्वारा गेबसाइट www.iiflonehome.com पर तपलका कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के मध्यम से की जाएगी। मांग सूचना की तिकि और राशि अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत सह-कर्जदार(ओ) गारंटर(ओ) 22-अक्टूबर-2024 संपत्ति का वह पूरा टुकका जिसमें वाणिवियक दुकान संख्या एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की रुपये 1483323 /-भूतल, सिना फत के अधिकार के प्रतीक-एक-362, ब्रीमति प्रना राणा बिद्ध नाम तिरासी 51वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 29 सितंबर, 2025 संक्टर 22, नोएडा, गीलमधुद्ध नगर, पत्तर प्रदेश, 201301 मापरा स्टार हच्यार तीन सी श्री चंहित पीहान में रिचत है। ब्रोजफल (दर्ग फुट में) संपंति का प्रकार को सुबह 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय तेईस स्ययं मात्र) भी रोहित मीहान निर्मित क्षेत्रफार, कारपेट क्षेत्रफार, संपत्ति का क्षेत्रकार 212ए, 216 और 222, 2री मंजिल, इंद्रप्रकाश 21, बोली चुद्धि राशि (बॉस्पेक्ट संख्या रुपवे 40000 /-बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001 में आयोजित की (बालील मजार रुपये गांच जाएगी जिसमें कंपनी के सभी सदस्यों को भेजी जा रही 12 करवरी 2025, श्री मुकंग ठाकुर रंपति सरुव 🙉 दूसरी मंजिल (पूर्वी दिशा) पीछे बाई ₹ 1827841/-

विशाल सौरव

तेईस हजार रुपये) अठारह लाख सलाईस हजार जाठ जिसे डावरी एक्सटेशन, मई दिल्ली, 110045 के माम से भी इकतालिल रूपठे माना बोली बृद्धि राशि (प्रॉस्पेक्ट संख्या जाना जाता है, के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियाँ। क्षेत्रफल ₹ 2196046/-बोली इद्धि राशि किंवल इस्कीस लाहा आईएल10086867) (ईएनडी) विवानके हज़ार 152300 /- (कंवल एक लाख · 25,000 /-बावन हजार तीन सी रूपये) (पन्चीस संकार रूपये गात्र) सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि इंएमडी की अंतिम तिथि ई-नीलामी की लिबि / समय **मुखान का विक्रि:**-ईएमडी भुगतान संवत ऑनलाइन विक्रि से करने होंगे। भुगतान करने के लिए आप https://www.iiflonchome.com पर जाएं और कंवल सम्पत्ति/प्रतिभूत आरित के लिए लब्द लिंक के मध्यम से भुगतान करें। लेट प्रत्येक संगति / सुरक्षित रांचीत के लिए मुगतान लिंक अलग हैं। सुनिश्चित करें कि आप एस संगति / सुरक्षित संगति से लिंक का उपयोग कर सं

है जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के मध्यम से खरीदना बाहते हैं। शेष नुमतान के लिए ~https://www.iiflonehome.com खबल टपक वारंत पर लॉनिन करें।

ओर खरारा रांच्या १४/२५ से संबंधित पात्र जावरी कॉलोनी

ई-मोलामी में भाग जेने के लिए इध्युक बोलीदाताओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com 🕸 पास पर्यापा अधिम में पंजीकृत करवाना होगा तथा लीगधुन खाता लॉगइन आई ही और पासको सुचित करना होगा। इन्छुक बोलीदाताओं को अपना निविध कामें ईएमडी के भुगतान विवरण केवाईसी लया पैनकार्त की प्रति के साथ पंचरि वर्गित तासा कार्यालय . बोलीदाला अपनी ऑफर कालम" बोलीवृद्धि राशि: में वर्षित राशि से गुणलों में बढा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिढ आने पर समाप्ति का समय स्वत: 5 मिनट आर

समाज बोलीचाता करें बोलीताति की 25 प्रतिशत राशि (हुएमडी सम्प्योजन के बाद) एओ द्वारा बोलीमूल्य स्वीकार करने के 24 घटे के मीतर और बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि प्रतिन्त लेनदार द्वारा बिळी की पृष्टि की तिथि से १५ दिन के भीतर जमा करनी होगी सभी जमा और मुगतान निर्धारित विधि से करने होंगे। खरीदार को सम्पत्ति के साथ संबंधित उपकर लागुस्ताम दृष्टी, फीस तथा अन्य कानुनी बकाया अथवा अन्य वकाया जैसे कि न्युनिसियलकर बिजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सभी अनुवंगी लागा

केता को जन्म की गई शक्ति के लेनदेन/भगतान के लिए टीडीएस आवेदन का भगतान करना होगा और आईआईएफएस एकएफएस के साथ टीडीएस प्रमागधत्र का निलान करना होगा। बोलीदालाओं कोई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में माम लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विश्तुत नियमों एवं सती क्या आवेदन प्रयत्न के लिए श्रेसला https://www.iiflonehome.com 전략 https://www.iifl.com/home-leans/properties-for-auction 호텔中 前 中河田 中 河南 東江

विन्तुत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रक्रियण के लिए संभावित बोलीदाता लेकप्रदाता की ई-मेल आईवी : cure@aitfonehome.com, संवीर्ट हेल्पलाइन नंब-

किली राम्पति विवरण, राम्पति निरीक्षण और ऑनलाइन बिज इत्यादि के राज्य में पूछलाछ के लिए आईआईएकएल एसएकएल टील फ्रीनंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच 09.30 बजे से 18.00 बजे तक कील बले अध्या ई-मेल : caresquitflonehome.com, को मेल लिखें। एतददास उपरोक्त कर्जवारों को सूचना दी जाती है कि भीतिक कब्जा लेते समय प्रतिभूत आसित में रखी घरेलू वस्तुए र दिन के मीतर हटा में, अन्यथा आईआईएफएल एवएफएल परिस्थितिय

के अधीन सम्पत्ति की किसी बाति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। एतदद्वार कर्जवारी को उसमें सुवान दी जाती है कि उपरोक्त बस्तुए प्राप्त कर ने में चुक की विवति में उनको विधि सम्मतद्वंग से बेसा जाएगा। न्तरुल बोलीदाला / नीलामी खरीदार द्वारा किसी भी बरण में मिश्रीरेल समय के मीतर भूगतान में यूक की शिव्रति में बिक्री रदद कर दी जाएगी तथा पहले जम की जा यूकी सांकि (ईएसडी

सहिता जब्दा कर सी जाएगी और सम्पति की बिक्री दोबारा की जाएगी। ्रकों का बिना कोई कारम बताए निविदा/मीलामी स्थामित/निरस्त करने या नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा/नीलामी के सबंध में किसी भी जिवाद की रिवर्ति में आईआईएकएल-एकएकएल के एवाँ का निर्मय अंतिम माना वाएमा । सरफंसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(8) के तहत वैद्यानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

करोदार को अभिसूचित किया जाता है कि उपरि वर्षित राशि असतन व्याज और अनुष्मी खर्मों के साथ निविदा / नीजामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असकल साने पर सम्पत्ति वेथी / नीजाम की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई ब्याज और सागत सहित वसून की जाएगी। स्थान : नई दिल्ली, तिथि : 04 -सितम्बर - 2025 हस्ता /-प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होन फाइनैस लिमिटेड

GENUS PRIME INFRA LIMITED (Formerly Gulshan Chemfill Limited)

(CIN: L24117UP2000PLC032010) Regd. Office: Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001 (U.P.)

Phone: 0591-2511242, Website: www.genusprime.com, Email: cs.genusprime@gmail.com

Notice of Annual General Meeting and E-Voting Information

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Genus Prime Infra Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 26, 2025 at 12:00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI in this regard (Collectively referred to as "applicable circulars") to transact the business as set forth in the Notice of AGM. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of AGM by following the procedure mentioned in the Notice of AGM. In accordance with the applicable circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 have been sent on September 03, 2025 to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Further, a letter containing the weblink and the exact path for assessing the Notice of 25th AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 has been sent to those shareholders who have not registered their email-address. The aforesaid documents are also available on website of the Company at www.genusprime.com, website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.

evotingindia.com and website of the Stock Exchange at www.bseindia.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, and applicable circulars, members holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 19, 2025 may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting or e-voting during the AGM. The detailed procedure or instructions for e-voting are contained in the Notice of AGM. In this regard, the Members are hereby informed

The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 23, 2025 at 9.00 am (IST) and end on Thursday, September 25, 2025 at 5.00

pm (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. (IST) on September 25, 2025.

It is hereby clarified that it is not mandatory for a member to vote using the remote e-voting facility. Members have also an option to cast their vote through e-voting by attending the AGM. Members can opt for only one mode of voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the

cut-off date, i.e. Friday, September 19, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person, who is not a Member as on the said cut-off date, should treat this Notice or Notice of AGM for information purposes only. अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पृष्टि की मांग की गई है ताकि कंपनी अपना पंजीकृत

Any person who has acquired shares of the Company and become member after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Friday, September 19, 2025 may obtain login ID and password by sending a request to the Company at cs.genusprime@ gmail.com or to the RTA at rta@alankit.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing login ID and

The shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM. Member participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act.

(viii) In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia. com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central

Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33. The Company has appointed Ms. Kornal, Practicing Company Secretary (FCS No.11636, CP No.17597) (M/s. Kornal & Associates), of Delhi, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process prior to the AGM and e-voting during the AGM in a fair and transparent manner. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 20, 2025 to Friday, September 26, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East),

By order of the Board of Directors For Genus Prime Infra Limited (Formerly Gulshan Chemfill Limited)

Place: Moradabad Jeevan Kumar Date: September 03, 2025 Company Secretary

epaper.jansatta.com